

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -04 - 03 - 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे ।

गुणवाचक विशेषण की परिभाषा

जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार-प्रकार रंग रूप गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। **जैसे:**

गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं :-

1. **गुणबोधक** = सुंदर, बलवान, विद्वान्, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शान्त आदि।
2. **दोष बोधक** = बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी आदि।
3. **रंगबोधक** = लाल, पीला, सफेद, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि।
4. **अवस्थाबोधक** = लम्बा, पतला, अस्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर आदि।
5. **स्वादबोधक** = खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित आदि।
6. **आकारबोधक** = गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लम्बा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊँचा, मोटा, पतला, पोला आदि।
7. **स्थानबोधक** = उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, उपरी, सतही, पुरबी, पछियाँ, दायँ, बायाँ, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, जापानी आदि।
8. **कालबोधक** = नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि।

9. **दिशाबोधक** = निचला, उपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि।

10. **स्पर्शबोधक** = मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि।

11. **भावबोधक** = अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि।

गुणवाचक विशेषण के उदाहरण

- विकास एक **बलवान** व्यक्ति है।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं **बलवान** शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द हमें विकास की विशेषता बताने का काम कर रहा है।

इससे हमें पता चल रहा है कि विकास में अत्यधिक बल है। अतः यह उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।

- बेंगलोर एक **स्वच्छ** नगर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं **स्वच्छ** शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया है। यह शब्द हमें बेंगलोर नगर के वातावरण के बारे में बता रहा है कि वहां का वातावरण साफ़ एवं स्वच्छ है। अतः यह उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।

- यह बहुत **सुन्दर** गाड़ी है।